



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2230]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 14, 2016/भाद्र 23, 1938

No. 2230]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 14, 2016/BHADRA 23, 1938

रेल मंत्रालय

(मेट्रो रेलवे, कोलकाता)

अधिसूचना

कोलकाता, 12 सितम्बर, 2016

का.आ. 2930 (अ).- केंद्रीय सरकार ने भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.2494(अ), तारीख 31 अगस्त, 2015 के अधीन जारी जो भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 15 सितम्बर, 2015 को प्रकाशित की गई थी, कोलकाता महानगर में मेट्रो रेलवे के जोका-बीबीडी बाग परियोजना के लिए माझेरहाट स्टेशन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, भवनों, पथ, सड़क, रास्ते या उनमें उपयोग के अधिकार या सुखाधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और जबकि सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 9 के अधीन भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 7 की उप धारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के भीतर दो आपत्तियां मामले दर्ज हुए और उस पर विचार किया गया है और आक्षेपकर्ताओं को उस आपत्तियों के बारे में बताने सुने जाने का अवसर दिया गया है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका निपटान कर दिया है ;

और केंद्रीय सरकार का, सक्षम प्राधिकारी के रिपोर्ट पर, यह समाधान हो गया है कि उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट भूमि, भवन, पथ, सड़क, रास्ते या उनमें उपयोग के अधिकार या सुखाधिकार उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैं ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम, 1978 की धारा 10 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट भूमि, भवन, पथ, सड़क, रास्ते या उनमें उपयोग के अधिकार या सुखाधिकार को अर्जित करती है ;

अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपूर्ण क्षेत्रों, जिनका अर्जन किया गया है, का रेखांक सक्षम प्राधिकारी, मेट्रो रेल के कार्यालय 39/1, रास बिहारी एवेन्यू (प्रथम तल), कोलकाता- 700026 में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

अनुसूची

माझेरहाट के रास्ते जोका से बिनय बादल दिनेश बाग (बी.बी.डी.बाग) के बीच मेट्रो रेलवे के निर्माण के संबंध में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि/परिसरों की अनुसूची, अधिग्रहण की जानेवाली भूमि, परिसर, भवन आदि का क्षेत्रफल, विवरण एवं चौहद्दी								
योजना संख्या	जिस उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है	कोलकाता नगर निगम वार्ड सं.	पुलिस स्टेशन	परिसर सं.	अधिग्रहण किया जाने वाला क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	भूमि की चौहद्दी	भूमि/परिसर का विवरण	अधिग्रहण का स्वरूप
आरवीएनएल /कोल/मेट्रो/ जोका-बीबीडी बाग/ 1/2015	माझेरहाट के रास्ते जोका से बिनय बादल दिनेश बाग (बी.बी.डी.बाग) तक मेट्रो रेलवे का निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य	79	साऊथ पोर्ट	35, डायमंड हार्बर रोड, अलीपुर, कोलकाता-27 पार्ट	336.769	उ.-हार्बर हाईट्स (परि. सं. 35/1) द.- केवेंटर प्रोजेक्ट लि. (परि. सं. 34/1) पू.- माझेरहाट पुल प.- परिसर सं. 34	गैर कृषि भूमि	स्थायी
		वही	वही	35/1, डायमंड हार्बर रोड, अलीपुर, कोलकाता-27 पार्ट	28.771	उ.-कलकत्ता गैस (परि. सं. 36) द.- हार्बर हाईट्स (परि. सं. 35) पू.- माझेरहाट पुल प.- परिसर सं. 35/1	वही	वही
		वही	वही	36, डायमंड हार्बर रोड, अलीपुर, कोलकाता-27 पार्ट	68.098	उ.-देवदर स्ट्रीट (परि. सं. 37) द.- हार्बर हाईट्स (परि. सं. 35/1) पू.- माझेरहाट पुल प.- परिसर सं. 35/1	वही	वही
				कुल	433.638			

[फा. सं. एमआरटीएस/डब्ल्यू-90/49ए/(भूमि अधिग्रहण)/भाग-II]

अंजनी कुमार, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-I

MINISTRY OF RAILWAYS

(METRO RAILWAY, KOLKATA)

NOTIFICATION

Kolkata, the 12th September, 2016

S.O.2930(E).—Whereas by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways number S.O. 2494(E), dated the 31st August 2015, issued under sub – section(1) of section 7 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978), published in Part – II, section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 15th September 2015, the Central Government gave notice of its intension to acquire lands, buildings, streets, roads, passages or the right of users or easement therein, specified in the Schedule appended to the said notification, for the purpose of construction of Majerhat station of Metro Railway of Joka – BBD Bag project and other works connected therewith in the metropolitan city of Kolkata;

And whereas two objection cases under section 9 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 had been filed within 21 days of the publication of notification under sub-section (1) of section 7 of the Metro Railways (Construction of Works) Act 1978, and both of them have been disposed off, as reported by the Competent Authority;

And whereas the Central Government, on the report of the Competent Authority is satisfied that the lands, buildings, streets, roads, passages or the right of users or easement therein, specified in the Schedule appended to the said notification, are required for the above said purpose;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978, the Central Government do hereby acquires the lands, buildings, streets, roads, passages or the right of users or easement therein, specified in the Schedule appended to the said notification;

The plan of the areas, specified in the Schedule which are required, is available for inspection in the office of the Competent Authority, Metro Railways, at 39/1, Rash Bihari Avenue, (1st Floor), Kolkata – 700026.

SCHEDULE

Schedule of Land/Premises to be acquired in connection with Construction of Metro Railway Between Joka to BinoyBadal Dinesh Bag (B.B.D. Bag) via Majerhat Area, Description and Boundary of Land, Premises, Building etc. to be acquired								
Plan No.	Purpose for which land is to be acquired	Kolkata Municipal Corporation Ward No.	Police Station	Premises No.	Area to be acquired in square metre	Boundary of Land	Description of Land/ Premises	Nature of Acquisition
RVNL/KOL/METRO/JOKA-BBD BAG/1/2015	Construction of Metro Railway from Joka to BinoyBadal Dinesh Bag (B.B.D.Bag) via Majerhat and other works connected therewith	79	South Port	35, Diamond Harbour Road, Alipore, Kolkata -27 PART	336.769	N- Harbour Heights (Pr.No. 35/1) S- Keventer Projects Ltd (Pr.No. 34/1) E- Majerhat Bridge W- Premises No. 34	Non-agricultural land	Permanent
		ditto	ditto	35/1, Diamond Harbour Road, Alipore, Kolkata -27 PART	28.771	N- Calcutta Gas (Pr.No. 36) S- Harbour Heights (Pr.No. 35) E- Majerhat Bridge W- Premises No. 35/1	ditto	ditto
		ditto	ditto	36, Diamond Harbour Road, Alipore, Kolkata -27 PART	68.098	N- Deodar Street (Pr.No. 37) S- Harbour Heights (Pr.No. 35/1) E- Majerhat Bridge W- Premises No. 35/1	ditto	ditto
				Total	433.638			

[F. No. MRTS/W-90/49A/(Land Acquisition)/Pt-II]

ANJANI KUMAR, Chief Engineer/Con. I